



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष 1946 (श०)

(सं० पटना 23) पटना, सोमवार, 13 जनवरी 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

13 जनवरी 2025

सं० सी०/ए०एस०-50-07/2019-278/जे०— “लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012” की धारा-32(1) में निहित प्रावधानानुसार निम्नलिखित जिलों में रेप एवं पॉक्सो एक्ट के तहत गठित अनन्य विशेष न्यायालय (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश) में अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होने तक कार्यकारी व्यवस्था के तहत निम्नलिखित अपर लोक अभियोजकों को अनन्य विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो एक्ट के रूप में कार्यों का संचालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	अपर लोक अभियोजक का नाम	पंजीयन संख्या	अभिहित अनन्य विशेष न्यायालय (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का नाम)
1	2	3	4	5
1.	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	श्रीमती पुष्पा दूबे	10134/1996	श्री मिथिलेश कुमार
2.	सीतामढ़ी	श्री अरविन्द ठाकुर	2663/1994	श्री सिद्धार्थ पाण्डेय
3.	समस्तीपुर	श्री पंकज कुमार देव	519/1990	श्री डॉ० किशोर कुणाल
4.	पटना	श्री नवल किशोर प्रसाद	352/1983	श्री दिनकर कुमार
5.	प० चम्पारण (बेतिया)	श्री जय शंकर	2893/2003	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता

2. उपर्युक्त अपर लोक अभियोजकों का कार्यकाल पॉक्सो एक्ट के तहत अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में, संबंधित जिलों में अपर लोक अभियोजक का नवीन पैनल गठन अथवा उक्त न्यायालय में अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

3. इनके द्वारा अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में केवल पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों का संचालन किया जायेगा अन्य किसी भी मामले का संचालन नहीं किया जायेगा।

4. ये विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट के संदर्भ में अनन्य विशेष लोक अभियोजक समझे जायेंगे।
5. विधि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1547/जे0, दिनांक-24.02.2023 में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत उक्त प्राधिकृत अनन्य विशेष लोक अभियोजकों को, विशेष लोक अभियोजक का निर्धारित मासिक शुल्क अनुमान्य होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)23-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>